

ATLAS JEWELLERY INDIA LIMITED

Reg. Off.: JA-710, 7th Floor, DLF Tower A, Plot No. 10, Jasola District, New Delhi-110025 E-mail: Info@atlasjewelleryindia.com, Phone: 011-40541077/41041149, Telefax: 011-40541077 Web: www.atlasjewelleryindia.com, CIN: L74140DL1989PLC131289

Date: February 15, 2021

To, BSE Limited Corporate Relation Department Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai- 400001

Subject: Newspaper publication of Un-Audited Financial Results for 03rd quarter and nine months ended December 31, 2020 pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Scrip Code: 514394

Dear Sir,

This is to inform you that pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015, Un-Audited Financial results for 03rd quarter and nine months ended December 31, 2020 have been published in English daily and regional newspaper. Please find enclosed the newspaper cuttings of the same.

Please take the information in your records.

Thanking You,

For ATLAS Jewellery India Limited

Helycha

(Chandan Mahapatra)

Company Secretary & CFO

Encl: As Above

No. SSA/MIS/PAL/414/2020/4408

The tender invited vide No. SSA/MIS/PAL/414/2020/3970 Dated 12.01.2021 for implementation of Artificial Intelligence based Personalised Adaptive Learning (PAL) platform in selected 200 Government Schools is hereby cancelled due to administrative reasons

NOTICE FOR CANCELLATION OF TENDER

Janasanyog/CF/4918/20



Sd/-Mission Director, SSA, Assam Kahilipara, Guwahati-19

ATLAS JEWELLERY INDIA LIMITED

CIN: L74140DL1989PLC131289 Regd. Off.: JA-710, 7th Floor, DLF Tower-A, Plot No: 10, Jasola, New Delhi-110025

elleryindia.com, Phone: 011-41041149/ 40541077, Web: www.atlasjewelleryindia.com **EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR**

THE THIRD QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31" DECEMBER 2020

S. No.	Particulars	Quarter ended 31" December 2020	Year to date Ended 31" December 2020	Corresponding Quarter ended in the previous year 31st December 2019
		Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited
1.	Total income from operations (net)	44.606	96.641	72.535
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(178.313)	(551.719)	89.256
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(178.313)	(551.719)	89.256
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(181.906)	(562.952)	89.631
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(181.906)	(562.952)	89.631
6.	Equity Share Capital	10065.45	10065.45	10065.45
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		927	-
8.	Earnings Per Share (face value of Rs. 10 each) (before and after extraordinary items) - 1. Basic: 2. Diluted:	(0.18)	(0.56)	0.09

1) These results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standard (referred to as "Ind AS") 34 Interin Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time and in compliance with Regulation 33 of the Listing Regulations. These results have been reviewed by the Audit Committee at its meeting held on February 13, 2021 and approved by the Board of Directors at its meeting held on February 13, 2021. The statutory auditors have expressed a qualified conclusion on these resu

The company has only one reportable segment namely "Jewellery retail".

- The Company's operations and financial results for the quarter have been adversely impacted by the lockdown imposed to contain the spread of COVID-19. Further to declaration of COVID 19 as a pandemic by the World Health Organisation in March 2020 and the nationwide lockdown announced by the Government of India on 24 March 2020, the operations of the Company were severely disrupted resulting in significant loss of revenue with retail operations remaining closed for the major part of nine month period ended 31 December 2020. Even with the partial lifting of lock down the retail scenario remains grim due to negative consumer sentiments, low discretionary spends, high gold prices, most of the employees working from home among other factors. The Company has assessed the impact of pandemic on its financial results/position based on the internal and external information available up to the date of approval of these financial results and expects to recover the carrying value of
- During the period ended 31 December 2020, the Company has renegotiated with certain property owners on the rereduction/ waiver due to COVID 19 pandemic. The Management believes that such reduction/ waiver in rent is short term in nature and meets the other conditions in accordance with the notification issued by the Central Government in consultation with National Financial Reporting Authority dated 24 July 2020 as Companies (Indian Accounting Standards) Amendmen Rules, 2020 with effect from 1 April 2020. Thus, in accordance with the said notification, the Company has elected to apply the practical expedient available and the reduction/ waiver does not necessitate a lease modification as envisaged in the Standard, Accordingly, the Company has recognised Rs 31,750 during the quarter (Rs.2.43 lacs for nine months period) in the statement of profit and loss.
- Response on basis for qualified conclusion in limited review report-
- a. Trade Receivables are classified as Financial Instruments under Ind-AS 109 and the Company is required to provide for impairments/ obligations as per "Expected Credit Loss (ECL) Method. Since the matter is still being decided by the Honourable Court the Company is presently not in a position to quantify the impairment amount as per the said accounting standards and hence has decided to wait for the Court's outcome before providing for any "Expected Credit Loss" unde Ind-AS 109.
- b. Management is of the view that notional foreign exchange gain or loss does not have any material impact on the Cash flows or going concern, as the same is provided as per the requirements of Ind-AS 21. c. As regards reliance on cash sales, it is correct as the Company presently does not have any external borrowings primarily
- due to the reason that the Promoter's has been unable to actively manage the Company as his open offer application is pending before SEBI from 2014 onwards and as a consequence his entire shareholding remains locked in an escrow account as per SEBI guidelines. We are given to understand that the promoter has filed a settlement application with SEBI Any favourable resolution will have a positive impact on the Company both financially as well as operationally Figures relating to the previous periods/year have been regrouped / reclassified wherever considered necessary

The results for the quarter and nine month ended December 31, 2020 are available on the BSE Limited website www.bseindia.com and on the Company's www.atlasjewelleryindia.com

For and on behalf of the Board of Director ATLAS JEWELLERY INDIA LIMITED Nanda Kumaran Puthezhati

Whole Time Directo

DIN: 0254761

Particulars

pefore Tax, Exceptional and/or Extraordinary items

Paid up Equity share capital (Face Value of Rs. 3/- each

Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)

Net Profit / (Loss) for the period after Tax

(after Exceptional and/or Extraordinary items)

Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after Tax) and

other Comprehensive income (after Tax)]

Earnings Per Share (of Re. 3/- each)

Diluted

Place : Gurugram Dated : 13-02-2021

NOTES:

Total income from operations

Net Profit / (Loss) for the period

Place: Kochi Date: February 13, 2021

Govt. 🐩 of Bihar

Prohibition, Excise and Registration Department (Registration), **BIHAR SOCIETY FOR COMPUTERISATION OF REGISTRATION OFFICES** (BISCORE)

Corrigendum -02 dated -12.02.2021 of

REQUEST FOR PROPOSAL

For

Selection of Service Provider for Installation, Testing, Commissioning and Maintenance of MPLS / VPN Connectivity for District Registry Offices and Sub Registry Offices of Prohibition, Excise and Registration Department, Government of Bihar and to State Data Center at Beltron Bhawan, Patna, Bihar Tender No: Registration/Biscore/MPLS-01/2021

Dated: 04.01.2021 Adv. No. - IPRD_PR_010640/20-21

& Adv. No. - IPRD_PR_011061/20-21

Technical Bids and Opening of Financial Bids are being ammended as below :-.

An e-tender has been invited at https://eproc2.bihar.gov.in/ for Selection of Service

Provider for Installation, Testing, Commissioning and Maintenance of Secondary MPLS/VPN Connectivity vide Tender No. Registration/Biscore/MPLS-01/2021 dated 04.01.2021. In Invitation for Bids (IFB) Eligibility Criteria, Bid Submission End Date and time, Opening of

ELIGIBILITY CRITERIA FOR SHORT-LISTING

			
Sr.			Documents to be
No.	Parameters mentioned in RFP	Revised parameters of RFP	Submitted
		The bidder should be a	
	The bidder should be a	company incorporated in India.	Copy of Certificate of
	company incorporated in India.	(Please furnish the Certificate of	Incorporation issued by
	(Please furnish the Certificate of	incorporation). It must be a	Registrar of Companies
	incorporation). It must be a	tier1 telecom service provider in	
	tier1 telecom service provider in	India at least for the last 3 years	
	India at least for the last 5 years	having MPLS/ VPN license.	
1	having MPLS/ VPN license.		
	Average of Turnover for the last		
	three years should be 500	Average of Turnover for the last	
	Crores or more. The bidder	two years should be 100 Crores	
	should be in operating-profit for	or more. The bidder should be	
	the last three financial years i.e.	in operating-profit for the last	
	2017-18, 2018-19 and 2019-20.	two financial years i.e. 2018-19	
	(Please provide audited annual	and 2019-20. (Please provide	
	reports, Balance Sheet, Profit &	audited annual reports, Balance	
	Loss accounts for the same. In	Sheet, Profit & Loss accounts for	C
	case last financial year i.e. 2019-	the same. In case last financial	Copy of the audit
	20 annual reports are not	year i.e. 2019-20 annual reports	Annual Reports and /or
	audited, bidder must submit	are not audited, bidder must	certificate of the
	previous three financial years	submit previous two financial	Chartered Accountant.
2.	audited annual reports.).	years audited annual reports.).	
CHA	NGE IN DATES :-		

Subject	Details published in existing	Revised details after				
	RFP	ammendment				
Bid Submission End Date and time	16/02/2021 : till 15.00PM	02/03/2021 : till 15.00PM				
Opening of Technical Bids	17/02/2021 : 11.00 AM	03/03/2021 : 11.00 AM Hours				
	Hours					
Opening of Financial Bids 19/02/2021 : 15.00 PM Hours 05/03/2021 : 15.00 PM H						
Event shows montioned	shanges all details mentioned in	DED document as ammended by				

Corrigendum 1 dated 12.01.2021 shall stay as they are published before

नोवल कोरोना के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं सहयोग हेतु 🚁 Toll Free No.: 🕇 🚺 4 पर संपर्क कर सकते हैं।

PR. No. 012828 (Registration) 2020-21

(Assistant Inspector General of Registration

Authority Signatory -Cum – Secretaty , BISCORE, Bihar, Patna)

Skill Ministry announces rollout | Facebook's Oversight of MG fellowship programme

PTI ■ NEW DELHI

The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship on Saturday said it is rolling out the Mahatma Gandhi National Fellowship (MGNF) programme in all the districts of the country.

So far the programme was working across 69 districts, and the ministry "is now expanding MGNF to all remaining districts in the

in a statement. Fellows under MGNF will

country," the ministry said

acquire academic expertise and technical competency in understanding the overall skill ecosystem along with being attached to District Skill Committees, it added.

The ministry has also partnered with Kerala Institute of Local Administration to conduct capacity building programmes for district officials from Kerala, Tamil Nadu, Puducherry and Lakshadweep.

"Our partnerships going forward will be more focused on strengthening the overall quality of skill training. With the recent launch of Pradhan

Mantri Kaushal Vikas Yojana 3.0 and today's academic partnerships with IIMs, IITs, GIZ-IGVET, KILA under our SANKALP scheme, together we will empower the districts ensuring demand-driven skilling," Skill Development and Entrepreneurship Minister Mahendra Nath Pandey said. SANKALP (Skills

Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood

Promotion) is a World Bank loan assisted programme to strengthen the district skill administration and the District Skill Committees (DSCs).

Board takes up new case from India

 $F^{acebook's\ Oversight\ Board}_{has\ taken\ up\ a\ new\ case}$ related to a user's post that was shared from a Punjabi-lan-guage online platform and contained insinuations against Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) and Prime Minister Narendra Modi.

While the post was initially taken down for violating Facebook's community guidelines, the social media company later restored the content.

The Oversight Board is an independent body set up by Facebook last year to look into hate speech and other undesirable content on the platform.

Previously, the Oversight Board had undertaken five cases, including one from India wherein a user had called for violence against French President Emmanuel Macron over a cartoon of Prophet.

In that particular case, the Board has overturned Facebook's decision to remove the content.

Govt procures paddy worth ₹1.20 lakh cr so far this kharif marketing season

PTI ■ NEW DELHI

Paddy procurement has increased 16 per cent so far this kharif marketing season at 638.57 lakh tonne, valued at Rs 1,20,562 crore, amid ongoing farmers' protest at borders of the national capital.

Kharif marketing year starts from October. "In the ongoing Kharif Marketing Season (KMS) 2020-21, Government continues to procure Kharif 2020-21 crops at MSP from farmers as per existing MSP schemes, as was done in previous seasons," an official statement said.

The government has purchased 638.57 lakh tonne till February 12, up 16.25 per cent from 549.30 lakh tonne in the corresponding period of the previous marketing year.
"About 91.69 lakh farmers

have already been benefitted

from the ongoing KMS procurement Operations with MSP value of Rs 1,20,562.19 crore," the statement said.

Out of the total purchase of 638.57 lakh tonne, Punjab has contributed 202.82 lakh tonne. Procurement operations of seed cotton (Kapas) under MSP are going on smoothly across many states. "Till February 12, a quantity of 91,35,211 cotton bales valuing Rs 26,643.55 crore has been procured benefitting 18,90,736 farmers," it said.

Thousands of farmers, especially from Punjab, Haryana and parts of Uttar Pradesh, are protesting at Delhi's borders for over two months seeking repeal of the three new farm legislations, introduced by the Centre last year, saying those are pro-corporate and can weaken the mandi system.

NALCO Net profit jumps 123% to ₹240 crore in 3rd Qtr of FY21

Bhubaneswar: National Aluminium Company Limited (NALCO), the Navrátna PSU, under Ministry of Mines, Govt. of India and country's leading manufacturer and exporter of alumina and aluminium, clocked a net profit of ₹240 cr for the 3rd quarter ended Dec 2020. The net profit has jumped by 123% over the previous quarter of current fiscal, which was ₹107 cr.The net profit for the nine months ended Dec 2020 has grown more than ten-fold to ₹364 crore as against ₹35 cr in corresponding period of last year. The total income in Q3 of FY21 witnessed substantial growth, clocking ₹2,415 cr compared to ₹2,137 cr in Q3 of FY20. On sales front, the net sales of alumina hydrate for Q3 of FY21 was 3.44 lakh tonnes compared to 3.33 lakh tonnes achieved in the corresponding period of last year.

Alliance Air to start flight services to Pantnagar from Delhi via Dehradun

PTI MUMBAI

Air India's regional sub-sidiary Alliance Air will resume its flight services to Pantnagar, in Uttarakhand from Delhi via Dehradun from February 16, the airline has said. . The airline will be deploy-

ing its 70-seater ATR 72 aircraft to operate the route, Alliance Air said in a late night release on Friday. According to the airline, its

flight 9I-645 will depart Delhi at 9.50 am and arrive in Dehradun at 10.55 am, from where it will depart for Pantnagar at 11.45 am and arrive there at 12.30 pm.

will depart Pantnagar at 1 pm for Dehradun, where it will arrive at 1.50 pm.

Petrol nears ₹95 in Mumbai as rate hiked for

fifth day in a row New Delhi:Petrol price in Mumbai neared record ₹95 per litre mark on Saturday as its rate as well as diesel prices were hiked for the fifth day in a row. Petrol price was increased by 30 paise per litre and diesel by 36

₹1.51 per litre for petrol while diesel rate has risen by ₹1.56 a litre.The relentless hike in prices

The return flight 9I-646

paise a litre, according to a price notification of state-owned fuel retailers. This took petrol price to an all-time high of ₹88.414 a litre in Delhi while diesel rate climbed to ₹78.74.In Mumbai, petrol price soared to ₹94.93 per litre and diesel price jumped to record ₹85.70 a litre.In 5 days this week, price has gone up by

has been criticised by the opposition parties, including Congress that has demanded an immediate cut in taxes to ease the burden on the common

SEARCH FOR MISSING/KIDNAPPED

Oxford University launches Covid-19 vaccine study on children

PTI ■ LONDON

The University of Oxford has launched the first study to assess the safety and immune responses in children and young adults of its coronavirus vaccine.

The university said that previous trials of its ChAdOx1 nCoV-19 jabs, which are being produced by AstraZeneca and also have a tie-up with the Serum Institute of India, have

shown that it is safe, produces strong immune system responses and has high efficacy in all adults.

From Friday, it would be extending its trials to assess if children and young adults aged 6-17 years also show a good immune response to coronavirus from it.

'While most children are relatively unaffected by coronavirus and are unlikely to become unwell with the infec-

31,2019

133.86

(148.30)

(148.30)

(148.30)

(141.08)

2,426.67

(0.18)

MEYER APPAREL LIMITED

CIN:L18101HR1993PLC032010 Regd. Office: 412 (4'h Floor), Orient Bestech Business Tower, Sector-34, Khandsa, Gurugram-122004 (Haryana) India

TEL: 91-9953696916 FMAII: info@meyerapparel.com WEBSITE: www.meyerapparel.com

EXTRACT OF THE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2020

31,2020

163.79

(18.53)

(11.92)

(11.92)

(3.99)

(0.01)

. These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the

Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India. The above financial results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2020 has been reviewed by the Audit committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 13" February 2021.

Board of Directors at their meeting neurous is resulted from the above is an extract of the detailed format of audited quarterly and yearly financial Results filed with the Stock Exchange under regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements). Regulations, 2015. The Full format of the Quarterly and yearly Financial Result is available on the Stock Exchange's website: www.bseindia.com and also on the Company's website, namely: www.meyerapparel.com.

For and on behalf of the Board Sdi-

2. The above is an extract of the detailed format of audited quarterly and yearly financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the

2,426.67

Quarter Ended

30, 2020

16.24

(77.07)

(84.55)

(84.55)

(83.89)

(0.11)

2,426.67

tion, it is important to establish the safety and immune response to the vaccine in children and young people as some children may benefit from vaccination," said Andrew Pollard, Professor of Paediatric Infection and Immunity, and Chief Investigator on the Oxford vaccine trial. "These new trials will extend our understanding of control of SARS-CoV2 to younger age

groups," he said.

31, 2020

Audited

543.34

(604.55)

(748.92)

(748.92

(902.83)

2,426.67

(0.93)

(4,986.95

Nine Months Ended Year Ender

Decembe 31, 2019

495.07

(334.52)

(334.52)

(334.52)

(322.34

2,426.67

(0.42)

(Gajender Kumar Sharma) Whole Time Director DIN-08073521

December 31, 2020

184.69

(163.43)

(164.31)

(164.31

(162.37)

2,426.67

(0.20)

General public is hereby informed that one girl namely Rizwana Khatoon D/o Mohd. Zakir R/o TC-40, Gali No. 2, Pandav Nagar, Ranjit Nagar, Delhi has been missing/kidnapped from the area of PS: Ranjit Nagar, Delhi since 27.01.2021. In this regard, a case FIR No. 266/21 U/S 363 IPC has been registered at P.S. Ranjit Nagar, Delhi. The description of the missing girl is as under. Age: 17 Years Complexion: Wheatish,

Height: 4' 4", Built: Thin, Face: Round, Wearing: Mehroom colour suit, white colour salwar and golden

colour shoes in feet. Sincere efforts have been made by the local police to trace out her but no clue has come to light so far. It anyone has any information about the missing/kidnapped girl then please inform P.S. Ranjit Nagar, Delhi at following Tel No./ email: cic@cbi.gov.in and Website: http://cbi.nic.in, providing clue about the missing girl.

Ph: 011-24368638, 24368641 Fax No. 011-24368639

DP/649/CD/2021

Sd/- SHO PS: Ranjit Nagar, Delhi Ph.: 011-25704008, 25704009

RIZWANA KHATOON

UNITED LEASING AND INDUSTRIES LIMITED Regd.Office: Plot No.66, Sector-34, EHTP, Gurugram, Haryana-122001. CIN: L17100HR1983PLC033460, Website:www.ulilltd.com, Email id: investorrelations@ulilltd.com, Phone:011-26258237 ement of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended December 31, 2020

SI. No.	Particulars		Quarter Ende	t	Nine Mont	Year Ended	
	(Refer Notes below)	31.12.2020 [Unaudited]	30.09.2020 [Unaudited]	31.12.2019 [Unaudited]	31.12.2020 [Unaudited]	31.12.2019 [Unaudited]	31.03.2020 [Audited]
.1	Total Income from Operations	33.84	158.64	69.89	193.97	152.81	235.45
2	Net Profit/(Loss) for the period before tax and exceptional & extraordinary items	2.28	80.45	7.24	(2.14)	(15.66)	22.48
3	Net Profit/(Loss) for the period after tax and exceptional & extraordinary items	2.28	80.45	7.24	(2.14)	(72.38)	(34.24)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax	2.28	80.45	7.24	(2.14)	(72.38)	(34.24)
5	Total Comprehensive Income		195				
6	Paid-up equity share capital	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
7	Earning Per Share of Rs.10/- each (not annualised)						
	a) Basic	0.08	2.68	0.24	(0.07)	(2.41)	(1.14)
	b) Diluted	0.08	2.68	0.24	(0.07)	(2.41)	(1.14)

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2021 led with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full ormat of the Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2020 are available on the Bombay Stock website www.bseindia.com and on Company's website www.ulilltd.com

Executive Director

DIN: 00092079

Dated : February 13, 2021

Anil Kumar Khar Managing Director DIN: 00207839

LOST & FOUND . Raian Verma S/o Paras Ram Verma R/o

IST LIMITED

Regd. Office: Dharuhera Industrial Complex, Delhi- Jaipur Highway No.8, Kapriwas, Dharuhera, Rewari (Haryana)-123106 Head Office: A - 23, New Office Complex, 2nd Floor, Defence Colony, New Delhi - 110024 CIN: L33301HR1976PLC008316, Phone No.: 011-24694291-92; Fax: 011-24625694; Email: istgroup.ho@gmail.com; website: www.istindia.com

EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTH ENDED 31ST DECEMBER, 2020 (Fig. in Lacs unless otherwise stated)

			Standaione				Consolidated				
SI		Quarter Ended Year to Da			o Date	Year ended	Quarter Ended		Year to Date		Year ended
No	Particulars Particulars		31.12.2019 Unaudited		31.12.2019 Unaudited	31.03.2020 Audited			31.12.2020 Unaudited		31.03.2020 Audited
1	Total Income from Operations	573.03	397.38	1496.21	1250.67	1755.07	3183.77	2997.49	9504.79	8572.11	11825.38
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional items)	138.25	204.20	627.12	707.69	598.48	3312.41	2918.89	9576.77	8744.74	10803.65
3	Net Profit for the period before Tax (after exceptional items)	138.25	204.20	627.12	707.69	598.48	3312.41	2918.89	9576.77	8744.74	10803.65
4	Net Profit for the period after tax (after exceptional items)	124.26	167.11	543.29	572.59	499.47	2326.35	2139.78	6864.7	6444.61	7992.16
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit for the period										
	(after tax) and other comprehensive income (after tax)	124.92	166.95	545.29	572.09	502.15	3375.71	2343.55	9001.27	6107.90	6672.90
6	Equity Share Capital (face value of Rs. 5/- each)	584.68	584.68	584.68	584.68	584.68	584.68	584.68	584.68	584.68	584.68
7	Other Equity					18363.02					79737.02
8	Earning Per Share (Face value of Rs. 5/- each)										
	- Basic (Rs.)	1.07	1.43	4.66	4.91	4.28	20.00	18.39	59.22	55.64	68.91
	- Diluted (Rs.)	1.07	1.43	4.66	4.91	4.28	20.00	18.39	59.22	55.64	68.91
NO	TES:										

The above is an extract of the detailed format of the Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and nine month ended 31th December, 2020 filed with the Stock Exchange (BSE Ltd.) under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Stock Exchange By order of the Board website (www.bseindia.com) and company's website www.istindia.com.

Place: New Delhi Dated: 13th February, 2021

A-64c, DDA Flats, Tagore Garden extr New Delhi have lost my origina conveyance Deed issued on 07 September 2012 by LNDO, Property bearingadress 30/8, Ramesh Nagar Double story, New Delhi. Regd. 26.712 in book No. 1.Vol. No. 20.391 or page 107 to110 on dated 14/11/2012 S.F , JANAK Puri New Delhi Property owne First party Amit Chawla S/o Ashok Chawla and Second Party Rajan verma S/o Para: Ram verma LR No.127463/2021

PUBLIC NOTICE Be it known to all concerned that Sh

Roshan Lal, S/o Late Sh. Hans Raj Sethi, who is original allottee of residential Plot No. 104, Block A Sector xxx Noida. Sh. Roshan Lal Sethi appointed Sh. Ashok Kumar, S/o Late. Sh. Shankar Ial, R/o C-397, New Usmanpur, Delhi, Presently at 17, Gali No. 01, Block B, Krishna Nagar (Bagu) Siddharth Vihar Ghaziabad, as his General Power of Attorney which is duly registered with Sub-registrar Delhi. Now the Attorney holder Sh. Ashok Kumar wishes to transfei the said plot/property to Sh. Sidharth Sharma, S/o Sh. Suresh Chandra Sharma, R/o 583, Sector-29, Noida. If any one has/have any objection he/she may file his/her objection along with documentary proof with the OSD (R) Noida Authority within 21 days from the date of publishing of

कृषि व्यापार को अपने दो मित्रों के हवाले करना चाहते हैं मोदी: राहुल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय कषि काननों को लेकर शनिवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वह देश की चालीस प्रतिशत जनता के कृषि व्यापार को अपने दो मित्रों के हवाले करना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि इन काननों के जरिए देश की रीढ़ को तोड़ा जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे लोगों को आंदोलनजीवी कहकर उनका अपमान किया है। राजस्थान के दो दिन के दौरे पर आए गांधी ने शनिवार को रूपनगढ और मकराना में किसान महापंचायतों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोकदेवता वीर तेजाजी के मंदिर में धोक लगाई। उन्होंने ट्रैक्टर भी चलाया और उंट गाड़ी पर चढ़कर लोगों का अभिवादन किया।

बड़ा व्यापार बताते हुए उन्होंने आरोप रहा है। किसानों को, मजदरों को, लगाया कि प्रधानमंत्री इसे देश की 40 व्यापारियों को, छोटे कारोबारियों को

निकाय चनावों के लिए सभी

व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने

शनिवार को यह बात कही। पंजाब में

आठ नगर निगमों-अबोहर, बठिंडा,

बटाला, कप्रथला, मोहाली,

होशियारपुर, पठानकोट और मोगा

तथा 109 नगर पालिका परिषदों और

नगर पंचायतों के चुनाव के लिए

मतदान 14 फरवरी को सुबह आठ

बजे से शाम चार बजे तक होगा।

2,302 वार्डों के लिए कुल 9,222

निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं,

जबिक 2,037 सत्ताधारी कांग्रेस के

और 1,569 अकाली दल के

उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी,

आम आदमी पार्टी और बसपा के

क्रमश: 1,003, 1,606 और 160 है।

दिनांक - 13.02.2021

स्थान – मोदीनगर 201204 (उ०प्र०)

निर्वाचन आयोग के

आयोग ने 4.102 मतदान केंद्र बनाए आरक्षित हैं।

भाषा। चंडीगढ़

पंजाब में आज होने वाले

निकाय चुनाव के इंतजाम पूरे

पंजाब में रविवार को होने वाले नगर संवेदनशील घोषित किया गया है।

कुल उम्मीदवारों में से 2,832 चुनाव के लिए कुल 39,15,280

संख्या

आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि फीसदी सीट महिलाओं के लिए

मोदी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

पंजि. कार्यालयः मोदी नगर (उ०प्र०) 201204 दूरभाषः 01232-243115, 09084786567

ईमेल : modiindustrieslimited@gmail.com वेबसाइट: www.modiindustries.net

एतैव द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 201 (2) के अनुपालनार्थ सूचना दी

जाती है कि कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 2013 की परि संख्या V के साथ पठित, धारा

196, 197 और 203 तथा फिलहाल लागू किसी अन्य प्रावधानों के अधीन केन्द्र सरकार

को इसके अनुमोदनार्थ 5 नवम्बर 2020 को आयोजित बैठक में कम्पनी के निदेशक

मण्डल द्वारा अनुमोदितानुसार तथा 5 दिसम्बर 2020 को आयोजित वार्षिक सामान्य

बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदितानुसार ऐसे निबन्धनो पर 1 दिसम्बर 2020 से प्रभावी

5 वर्षों की अवधि के लिये कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक के रूप में श्री उमेश कुमार मोदी

(डिन 00002757) को पुनः निर्वाचित हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहती है।

उद्योगपतियों को देना चाहते हैं। उन्होंने कहा, कृषि दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार है। नरेन्द्र मोदी यह कानुन इसलिए लाए हैं ताकि वह इस व्यापार को हिंदुस्तान की 40 प्रतिशत आबादी से छीन कर हिंदुस्तान के दो-तीन सबसे बडे उद्योगपितयों के हाथ में दे सके। यही इन तीन कानूनों का लक्ष्य है। उन्होंने कहा, ए कृषि क्षेत्र हिंदुस्तान की जनता को रोजगार देता है। इसके बिना हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। जो आपका है, उसे प्रधानमंत्री मोदी दो लोगों को दे रहे हैं। यवाओं का भविष्य उनसे छीना जा रहा है। हिंदुस्तान की रीढ की हडुडी को आपकी आंखों के सामने तोडा जा रहा है। गांधी ने कहा, यह नई बात नहीं है। इसकी शरुआत मोदी ने नोटबंदी से की। आपकी जेब से पैसा निकालकर उन्हीं दो-तीन उद्योगपतियों को दिया। इसके बाद जीएसटी, गब्बर कृषि को देश और दुनिया का सबसे सिंह टैक्स ... रास्ता साफ किया जा

हैं और इनमें से 1,708 को

संवेदनशील और 861 को अति-

प्रवक्ता ने कहा कि शाम चार बजे

तक मतदान केंद्र में प्रवेश करने वाले

मतदाताओं को मतदान करने दिया

मतदान के लिए लगभग 7,000

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम)

लगाई गई हैं और कुल 25,010

कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की गई

है। प्रवक्ता ने कहा कि स्वतंत्र और

निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए लगभग

19,000 पुलिस कर्मियों को तैनात

किया गया है। पंजाब में नगर निकाय

पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें

20,49,777 पुरुष, 18,65,354

महिला और 149 ट्रांसजेंडर मतदाता

हैं। प्रवक्ता ने कहा कि स्वतंत्र एवं

निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए 30

आईएएसापीसीएस अधिकारियों को

पर्यवेक्षकों के रूप में प्रतिनियुक्त

किया गया है। इन चुनावों में 50

मतगणना 17 फरवरी को होगी।



परे किया जा रहा है। उन्होंने कहा, मेंने कहा कि कोरोना से किसानों, मजदूरों और गरीबों को भयानक चोट लगने वाली है। प्रेस वालों ने मेरा मजाक उडाया था। प्रेस वाले कहते हैं कि ए किसान नहीं है। ए देशद्राही हैं .नरेन्द्र मोदी संसद में उनको आंदोलनजीवी कहते हैं, उनका अपमान करते हैं उनका मजाक उडाते हैं। गांधी ने कहा, उन्होंने आंदोलन के दौरान शहीद हए 200 किसानों के लिए दो मिनट का मौन रखने को कहा तो भाजपा का एक भी सांसद, मंत्री

सूचना आयोग सख्त

जयपुर। राजस्थान सूचना आयोग ने

सूचना मुहैया करवाने में ढिलाई बरतने

वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख

अपनाया है और ऐसे जुर्माना लगाने

समेत दोषी अधिकारियों के खिलाफ

दंडात्मक कार्वाई की है। आयोग के

सूत्रों ने बताया कि आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए सूचना उपलब्ध नहीं करवाने

के मामलों में अधिकारियों पर जुर्माना

पर दस हजार रूपए का जुर्माना लगाया

है। यह राशि उनके वेतन से काटी

जाएगी। आयोग ने अधीक्षक को सूचना

मांगने वाले आवेदक को 15 दिन में

सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया

है। आयोग ने बारां नगर परिषद के

आयुक्त पर सूचना के अधिकार कानून

के प्रावधानों के प्रति लापखाही बरतने

पर दस हजार रूपए का जुर्माना लगाया

है। इसी तरह आयोग ने कोटा में विज्ञान

और प्रौद्योगिकी विभाग के लोक सूचना

अधिकारी पर पांच हजार रूपए की

जुर्माना लगाया है। यह राशि उनकी

तनख्वाह से काटी जाएगी। आयोग ने

कोटा जिले में गोयन्दा गांव के ग्राम

विकास अधिकारी के खैए पर नाराजगी

दिखाई और सूचना देने में लापरवाही

बरतने के लिए उन पर पांच हजार रूपए

बोर्ड के आदेश द्वारा

का जुर्माना लगाया है।

लगाया जुर्माना

खडा नहीं हुआ। दुनिया के सामने इन लोगों ने किसान का मजाक किया। मैं अध्यक्ष को लिखकर दुंगा कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों को शहीद किसानों के लिए मौन रखना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है दो मिनट का मौन रखने को कहेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए दो मिनट का मौन रखकर उन्होंने कोई गलती नहीं की। अगर गलती की तो यह फिर से करूंगा और करता जाऊंगा। राजस्थान के दो दिवसीय दौरे है कि हम मर जाएंगे लेकिन हम ए

किशनगढ़ के पास सुरसुरा में लोक देवता तेजाजी महाराज मंदिर में दर्शन किए और पजा की। उन्होंने रूपनगढ में भी किसान संवाद किया जहां उन्होंने तीन केंद्रीय कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए कहा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा व्यापार कृषि का है। 40 लाख करोड रुपए का व्यापार है। दुनिया का सबसे बडा व्यापार है और यह किसी एक व्यक्ति का व्यापार नहीं है। कृषि का व्यापार हिंदुस्तान के 40 प्रतिशत लोगों का व्यापार है। इसमें किसान, छोटे व्यापारी, मजदूर सब भागीदार हैं। गांधी ने कहा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि यह पुरा का पुरा व्यापार उनके दो मित्रों के हवाले हो जाए। इन कृषि कानुनों का यही लक्ष्य है। मोदी जी चाहते हैं कि जो आपका है जो 40 प्रतिशत हिंदुस्तान का है, वह सिर्फ दो लोगों के हाथों में चला जाए। हालांकि उन्होंने कहा, लेकिन किसान कह रहा

ट्रालियों को जोडकर बनाए गए मंच से किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा. यह मत सोचिए कि सिर्फ किसान बोल रहा है। किसान के पीछे मजदर है, मजदर के साथ छोटा व्यापारी खडा है। अगर ए कानन लाग हो गए तो इसका नुकसान सिर्फ किसानों को नहीं होगा। सबके सब बेरोजगार हो जाएंगे। गांधी ने रूपनगढ में ट्रैक्टर भी चलाया। उनके साथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी बैठे। गांधी ने वहां मौजूद लोगों का अभिभावदन करते हुए काफी देर तक ट्रैक्टर चलाया। कांग्रेस के इस कार्यक्रम में किसान अपने-अपने ट्रैक्टर लेकर पहुंचे थे।

अनुमानित लागत (रूपाया में): 5.21.36,000.00 निविदा प्रपत्र का मुख्य (रूपाया में):: 10.000.00 अमा **परि**। फर्म को अपेक्षित अनैस्ट मनी डिपॉजिट की छट हैने के लिए ई-बिड जमा करने के समय बि सेक्योरिटी डिक्लेरेशन जमा करना है । जो कि टेंडर डॉक्यमेंट के अध्याय -IV के एनेक्सर-VI पर है कार्य की मात्रा: 700 अरहर क्षेत्र । कार्य समापन की अवधि: 12 मार । • निविदा जमा करने की अवधि देनांक 18.02.2021 से 04.03.2021 । • निविदा बंद होने की तिथि एंव समय :- दिनांक- 04.83.2021 । 5:00 वजे । निविदा खलने की विधि एंव समय-:- दिनांक- 04:03:2021 को 15:15 वजे । • निविदा सर्व प्रबरेती द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिये (ई-निविदा सं-एम-200/एमसीएफ/आरबीएल/फर.एक्टिबॉ

स्मापन की अविधः 12 मार या पाले • ई-निविदा दिनांकः- 15.03.2021 को 15:00 वजे तक ऑन-लडन

हर सकते हैं। इस्त रिविशत निविद्य स्वीकार नहीं की जाएगी। • **ई-निविदा दिनांक**ः- 15.03.2021 को 15.00 व

के बाद ऑन-लाइन http://www.ireps.gov.in के द्वारा खोली जाएगी। • ई-निकिटा सुचना और टर्म्स ।

कंडीकन का पूर्ण विवरण भारतीय रेलवे के आईआरईपीएस की वेब साइट http://www.ireps.gov.in

एटलस ज्वैलरी इंडिया लिमिटेड

सीआईएन : एल74140डीएल 1989पीएलसी131289 पंजी. कार्यालय : जेऐ-710, 7वां तल, डीएलएफ टावर-ए, प्लॉट सं. 10, जासोला, नई दिल्ली-110025

ई—मेल : info@atlasiewellervindia.com. फोन : 011—41041149 / 40541077 वेब : www.atlasiewellervindia.com 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तीसरी तिमाही और नौ माह हेतु

पथक्कत अ-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण

		(4	 लाख में, प्रति शं 	।यर डेटा को छोड़कर)	
क्र. सं.		तिमाही समाप्त	वर्षाचतन समाप्त	पूर्व वर्ष में संगत तिमाही समाप्त 31 दिसम्बर, 2019	
	विवरण	31 दिसम्बर, 2020	31 दिसम्बर, 2020		
		अ—लेखापरीक्षित	अ—लेखापरीक्षित	अ—लेखापरीक्षित	
1.	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	44.606	96.641	72.535	
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) (कर, अपवाद तथा/अथवा असाघारण मदों से पहले)	(178.313)	(551.719)	89.256	
3.	अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि), कर से पहले (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(178.313)	(551.719)	89.256	
4.	अविघ हेतु शुद्ध लाम/(हानि), कर पश्चात (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(181.906)	(562.952)	89.631	
5.	अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाग/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित हैं]	(181.906)	(562.952)	89.631	
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	10065.45	10065.45	10065.45	
7,	संवेय (पुनर्मूल्यन संवेय छोड़कर) जैसाकि पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाया गया है		(#)	-	
8.	प्रति शेयर अर्जन (अंकित मूल्य रू. 10/— प्रत्येक) (असाधारण मदों से पूर्व और पश्चात) — 1. मूल : 2. तनकृत :	(0.18)	(0.56)	0.09	

(1) ये परिणाम कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, समय समय पर संशोधित के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धार 133 के अधीन निर्धारित भारतीय लेखांकन गानक ('आईएनडी एएस' के रूप में संदर्भित) 34 अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग और सूचीयन विनियमावली के विनियम 33 के अनुसार तैयार किए गए हैं। ये परिणमा लेखापरीक्षा समिति द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2021 को आयोजि इसकी बैठक में पुनरीक्षित किए गए हैं और निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2021 को आयोजित इसकी बैठक में अनुमोदित किए गए हैं। साविधिक लेखापरीक्षकों ने इन परिणामों पर सापेक्ष निष्कर्ष व्यक्त किया है।

(3) कोविड–19 के प्रसार की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन से कम्पनी के प्रचालन और वित्तीय परिणाम प्रतिकृल रूप से प्रमावित हु। हैं। इसके अतिरिक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मार्च, 2020 में कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किए जाने तथा मारत सरका द्वारा 24 मार्च, 2020 को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन घोषित किए जाने से कम्पनी के प्रचालन गंभीर रूप से अव्यवस्थित हो गए थे, जिसके फलस्वरूप 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त नौ माह की अधिकांश अवधि में खुदरा प्रचालन बंद रहने के कारण भारी राजस्व क्षति हुई है। लॉकडाउन को आंशिक रूप से हटाए जाने के बाद भी खुदरा परिदृश्य उपभोक्ताओं की नकारात्मक भावनाओं, निम्न विवेकशीत खर्चों, सोने की ऊंची कीमतों तथा कर्मचारियों के घर से काम करने जैसे अन्य कारणों से धुंघला बना हुआ है। इसलिए तिमाही व परिणाम पिछली तिमाही अथवा पूर्व वर्ष की संगत तिमाही के साथ तुलनीय नहीं हैं। कम्पनी ने वैश्विक महामारी का इसके वित्तीय परिणामों / स्थित पर प्रमाव का आकलन इन वित्तीय परिणामों के अंतिम अनुमोदन की तिथि तक उपलब्ध बाह्य सूचना के आधार प किया है तथा इसकी आस्तियों के वहन मूल्य की बहाली की आशा की जाती है।

(4) 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही के दौरान, कम्पनी ने कोविड—19 वैश्विक महामारी के कारण कुछ भूरवामियों से किराया क करने/माफ करने हेतु पुनः बातचीत की है। प्रबंघकों को विश्वास है कि किराए में ऐसी कमी/माफी अल्पावधि प्रकार की है और भार सरकार दारा राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन पाधिकरण के साथ प्रशमर्श से 01 अप्रैल 2020 के प्रभाव से कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक संशोधन नियमावली के रूप में जारी अधिसूचना दिनांकित 24 जुलाई, 2020 के अनुसार अन्य शर्तों को भी पूरा करती है। इस प्रकार उक्त अधिसूचना के अनुसार, कम्पनी ने उपलब्ध व्यावहारिक शीघता लागू करने का उपाय किया है तथा कमी/माफी से मानक कित्पतानुसार लीज संशोधन की आवश्यकता पैदा नहीं होती है। तदनुसार, कम्पनी ने लाम और हानि के विवरण में तिमाही के दौरा रू. 31,750 को (नौ माह की अवधि हेतु रू. 2.43 लाख) को मान्यता प्रदान की है।

(5) सीमित पुनरीक्षण रिपोर्ट में सापेक्ष निष्कर्ष हेतु आधार पर प्रत्युत्तर

2) कम्पनी का केवल एक प्रतिवेदनीय खण्ड नामतः "ज्वैलरी रिटेल" है।

क) व्यापार प्राप्य आईएनडी−एएस 109 के तहत वित्तीय प्रपत्रों की श्रेणी में रखे गए हैं तथा कम्पनी द्वारा, क्षतियों ∕ दायित्वों हेतु व्यवस्था, "प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) विधि के अनुसार की जानी अपेक्षित है। बूंकि मामला अभी माननीय न्यायालय द्वारा निर्णीत किया जाना शेष है, कम्पनी इस समय उक्त लेखांकन मानकों के अनुसार क्षति राशि निर्धारित करने की रिधति में नहीं है और अतएव कम्पनी ने आईएनडी-एएस 109 व तहत किसी "पत्याशित केंद्रिट हानि" की व्यवस्था करने से पहले न्यायालय के परिणाम की प्रतीक्षा करने का निर्णय किया है।

ख) प्रबंधकमण का मत है कि राष्ट्रीय विदेशी मदा लाभ अथवा हानि का नकदी प्रवाह अथवा चाल कन्सर्न पर कोई महत्वपर्ण प्रभाव नर्ह पड़ता है, क्योंकि उसकी व्यवस्था आईएनडी-एएस 21 के अनुसार दी गई है।

i) जहां तक नकद बिक्री पर आश्रय का प्रश्न है. यह सही है क्योंकि 2014 से सेबी के पास लम्बित ओपन ऑफर आवेदन और सेबी वं दिशानिर्देशों के अनुसार उसकी सम्पूर्ण शेयरघारिता एस्क्रो खाते में बंद होने के परिणामस्वरूप प्रवर्तक कम्पनी का सक्रिय प्रबंधन नहीं कर पाने के मूल कारण से कम्पनी पर इस समय कोई बाहरी उधारी नहीं है। हमें सूचित किया गया है कि प्रवर्तक ने सेबी में एक समझौता आवेदन प्रस्तुत किया है तथा उसको शीघ्र सुलझा लिए जाने की आशा है। किसी अनुकुल प्रस्ताव का कम्पनी पर वित्त और प्रचालन दोनों की दिष्ट से सकारात्मक प्रभाव होगा।

(6) पूर्व अविधयों / वर्ष संबंधी आंकड़े, जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पुनर्वर्गीकृत / पुनर्समूहित किए गए हैं।

हिन्दुस्तान अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : कंचनजंगा, 7वां तल, 18, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001

(7) 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही और नौ माह हेतु परिणाम बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर और कम्पर्न की वेबसाइट www.atlasjewelleryindia.com पर उपलब्ध हैं।

कृते एवं हिते निदेशक मंडल एटलस ज्वैलरी इंडिया लिमिटेड

डीआईएन : 0 254761

हस्ता./ नंदा कुमारन पुथेजाथ (Nanda Kumaran Puthezhath) पूर्णकालिक निदेशव

दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेसवे से यातायात सुगम होगाः गडकरी

• वाहन मालिकों को अच्छी सेवाएं चाहिए तो सड़क कर देना होगा

भाषा। पुणे

लगाया है और कुछ मामलों में चेतावनी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दी गई है। ऐसे ही एक मामले में आयोग ने शनिवार पुणे और पश्चिमी महाराष्ट्र ने उदयपुर के भूपाल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की विभिन्न सड़क परियोजनाओं की के अधीक्षक पर दस हजार रूपए का समीक्षा करने के बाद कहा कि जुर्माना लगाया है।आयोग ने यह कार्वाई दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेसवे के पूरा हो तब की जब उदयपुर के मोहम्मद सईद जाने के बाद पुणे-मुम्बई एक्सप्रेसवे ने उसके समक्ष अपील करके शिकायत पर वर्तमान यातायात दबाव घटेगा और की कि उनके सुचना के आवेदन को वाहनों की आवाजाही सुगम होगी। हॉस्पिटल प्रशासन ने कोई तवज्जो नहीं पुणे में चांदनी चौक पर निर्माणाधीन दी। इस आयोग ने अधीक्षक से जवाब बहस्तरीय फ्लाईओवर परियोजना का निरीक्षण करने के बाद गडकरी ने यहां तलब किया और सफाई मांगी। पर तीन बार नोटिस भेजने के बावजूद भी संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अधीक्षक ने कोई जवाब नहीं दिया। इस उन्होंने संबंधित अधिकारियों. ठेकेदारों पर सचना आयक्त नारायण बारेठ ने और स्थानीय नगर निकायों को यह नाराजगी जाहिर की और इसे कानन की सुनिश्चित करने के लिए एक योजना अवहेलना बताया। आयुक्त ने अधीक्षक

तैयार करने का निर्देश दिया है ताकि यह कार्य अगले एक साल में पूरा हो जाए। भाजपा सांसद ने यह भी कहा कि वाहन मालिकों को यदि अच्छी सेवाएं चाहिए तो उन्हें सड़क कर देना

उन्होंने कहा, दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। इसके पूरा हो जाने के बाद पुणे-मुम्बई एक्सप्रेसवे पर यातायात भार घटेगा, क्योंकि फिलहाल उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच यातायात का एक बडा हिस्सा मुम्बई-पुणे एक्सप्रेसवे से गुजरता है। दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजधानी को देश की वाणिज्यिक राजधानी से जोडने वाला 1250 किलोमीटर लंबा राजमार्ग है।

गडकरी ने कहा कि पुणे-मुम्बई एक्सप्रेसवे पर भारी यातायात की वजह यह है कि उत्तरी राज्यों से आने वाले वाहनों को दक्षिणी राज्यों की ओर जाने के लिए इसी राजमार्ग से

राज्य सरकार से पुरस्कार पा कर ख़ुश है ताडी निकालने का काम करने वाला

वायनाड। केरल में पिछले 30 साल से ताड़ी निकालने का काम करने वाले टी एस मुरलीधरन राज्य सरकार से पुरस्कार पा कर खुश हैं। इस पुरस्कार की शुरूआत बेहतर श्रम संस्कृति के लिए की गई थी। मुरलीधरन ने कहा, राज्य सरकार का यह एक स्वागत योग्य कदम है। मैं इसे मेरे काम के प्रति मेरी इमानदारी एवं निष्ठा को मिली पहचान के रूप में देखता हूं। मुरलीधरन असंगठित क्षेत्र के उन 15 श्रमिकों में शामिल है जिन्हें केरल सरकार की ओर से थोझीलाली श्रेष्ठ पुरस्कार से नवाजा गया है। मनंतवाडी के रहने वाले, 58 साल के मुरलीधरन ने कहा कि वह संकट प्रभावित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें लगता है कि अब यह अधिक दिन तक चलने वाला नहीं है।ताड़ी निकालने का काम सामान्य

तौर पर परंपरागत काम है और इससे जुड़े बहुत सारे लोग अब खाली बैठे I, Raian Verma S/o Paras Ram Verma R/o हैं। इसके कई कारण है जिनमें रोगग्रस्त A-64c, DDA Flats, Tagore Garden extn. New Delhi have lost my origina नारियल का पेड, ताडी की दकान conveyance Deed issued on 07 September 2012 by LNDO, Propert लगाने पर प्रतिबंध और भारत में बनी विदेशी शराब को अधिक महत्व दिया जाना शामिल है। मुरलीधरन ने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह क्षेत्र लंबे समय तक चलेगा क्योंकि भारत में बनी विदेशी शराब की उपलब्धता के कारण लोग ताडी पीने में बहुत अधिक रूचि नहीं दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि नई पीढी यह काम नहीं करना चाहती क्योंकि इसमें जोखिम है।

bearingadress 30/8, Ramesh Nagar, Double story, New Delhi. Regd. No. 26,712 in book No. 1,Vol. No. 20,391 or page 107 to 110 on dated 14/11/2012 S.R II, JANAK Puri New Delhi Property owner First party Amit Chawla S/o Ashok Chawl and Second Party Rajan verma S/o Para Ram verma LR No.127463/2021

औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर जनता का समर्थन है: शिवसेना मंत्री

मंत्री और शिवसेना के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे ने शनिवार को कहा कि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखने को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि लोग इस मांग का समर्थन कर रहे हैं। वह मराठवाड़ा के सबसे बड़े शहर में एकीकृत विकास नियंत्रण विनियमों पर एक बैठक की अध्यक्षता करने के लिए आए थे।उन्होंने कहा, औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने का विरोध करने का कोई कारण नहीं है। जनता की मांग है कि यह नाम औरंगाबाद को दिया जाए और शिवसेना जनता के साथ है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का चुनावों से कोई संबंध नहीं है। घरों के निर्माण की प्रक्रिया के सरलीकरण के बारे में मंत्री ने कहा कि।,500 वर्ग फुट तक के क्षेत्र वाले घरों के लिए केवल प्रासंगिक शुल्क और योजनाएं प्रस्तुत करने की जरूरत है, जबिक 3,000 वर्ग फुट तक के क्षेत्र वाले लोगों के लिए 10 दिनों में अनुमति दी

औरंगाबाद। महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 13-02-2021

सीआईएन ः एल31300डीएल1959पीएलसी003141, www.hindusthanurban.com, फोन ः 011–2331001 (5 लाइन्स), ई–मेल ः investors@hindusthan.co.i तिमाही समाप विवरण 30 सित. अनंकेक्षित अनंकेक्षित) 5.979.63 10.171.44

स्थान : कोचि

तिथि : 13 फरवरी, 2021

31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही और नौ माह हेतु अनंकेक्षित पृथक्कृत और समेकित वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण (रू. लाख में सिवाय प्रति शेयर डेट नौ माह समाप्त 31 दिस. 31 दिस 31 मार्च, 30 सित. 31 दिस. 31 दिस. 31 मार्च, 2020 (अंकेक्षित) अनंकेक्षित (अंकेक्षित) अनंकेक्षित (अनंकेक्षित (अनंकेक्षित (अनंकेक्षित अनंकेक्षिर (अनंकेक्षित (अनंकेक्षित) प्रचालनों से कुल आय 9.541.26 22.086.09 38,036.10 46.294.00 11,407.68 13.268.82 11.355.17 31.531.23 43 650 88 55.032.85 (30.41) प्रविध / वर्ष हेतु शुद्ध लाभ , 476.36 26.59 (171.34) 724.25 948.50 (236.05) (992.13)(1.325.49)(3,010.18) (2,600.59)(3,985.05 (हानि) (कर तथा अपवाद मदों से पूर्व) (992.13) (1.325.49) (3,010,18) (2,599.56) (3,985.05) (30.41)476.36 (171.34) 948.50 (236.05 अवधि/वर्ष हेतु शुद्ध लाम/ 26.59 995.19 (हानि) कर से पहले (अपवाद मदों के पश्चात) (24.84) अवधि/वर्ष हेतु शुद्ध लाम/ 484.58 342.67 (100.42) 555.60 (170.34) (602.07) (674.82) (2,191.29) (1,951.35) (3,095.70) अवधि/वर्ष हेतु कुल समावेशी 481.60 343.89 (110.13)540.01 (172.57 (673.40)(2,198.68) (1,947.43)(3,108.20) आय [जिसमें अवधि/वर्ष हेतु लाभ / (हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित हैं] इक्विटी शेयर पूंजी 144.29 144.29 144.29 144.29 144.29 144.29 144.29 144.29 144.29 144.29 144.29 144.29 अन्य इक्विटी 45.485.78 42,346.78 रू. 10 प्रत्येक के प्रत्येक शेयर पर अर्जन (क) मूल (रू.) (1.72)33.58 23.75 (6.96)52.80 38.51 (10.47)(17.45)(91.72 (109.58) (17.45)(1.72)33.58 23.75 (6.96 52.80 38.51 (7.62)(91.72) (109.58) (ख) तनुकृत (रू.) (10.47)

नोट : उपरोक्त विवरण सेबी (सचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली. 2015 के विनियम 33 के अधीन स्टॉक एक्सचेन्ज में प्रस्तुत किए गए 31 दिसम्बर, 2020 को समाप तिमाही और नौ माह हेतु अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही और नौ माह हेतु अनंकेक्षित वित्तीय परिणामो का पूर्ण विवरण साविधिक लेखापरीक्षकों की पुनरीक्षण रिपोर्ट सहित हमारी वेबसाइट www.hindusthanurban.com के निवेशक खंड के अंतर्गत तथा www.bseindia.com

के कार्पोरेट खंड में वित्तीय परिणामों के अंतर्गत उपलब्ध है। उपरोक्त अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सीमित पुनरीक्षण कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा, पुनरीक्षण लेखापरीक्षा सिमित द्वारा और अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा इसकी 1 फरवरी, 2021 को सम्पन्न बैठक में किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों की पुनरीक्षण रिपोर्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में प्रस्तुत की जा रही है।

हिन्दुस्तान अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्वर लिमिटे

हस्ता / (दीपक केजरीवाल प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 0744255

वेबसाइट : www.cosco.in ई-मेल : mail@cosco.in फोन: 91-11-23843000 फैक्स: 91-11-23846000 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही और नौ माह हेतू पृथक्कृत अलेखापरीक्षित

वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण

बोर्ड के आदेश द्वारा

(शोबित नेहरा)

(एसीएस 31863)

वास्ते मोदी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

कॉस्को (इंडिया) लिमिटेड

सीआईएन : एल25199डीएल1980पीएलसी010173

पंजी. कार्यालय : 2/8, रूप नगर, दिल्ली-110007

क्र.			तिमाही समाप्त		नौ माह	वर्ष समाप्त		
सं.	विवरण	31-12-2020	30-09-2020 31-12-2019		31-12-2020 31-12-2019		31-03-2020	
		अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	
1	परिचालन से कुल आय	3,985.87	3,340.45	3,114.40	10,049.95	10,100.52	13,435.82	
2	अवधि हेतु शुद्ध लाम, कर पूर्व	177.92	94.39	63.37	330.28	217.55	221.78	
3	अवधि हेतु शुद्ध लाम, कर पश्चात	149.90	64.16	57.79	251.08	161.14	180.72	
4	अवधि हेतु कुल समावेशी आय	149.90	64.16	57.79	251.08	161.14	179.81	
	[जिसमें अवधि हेतु लाम (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी							
	आय (कर पश्चात) सम्मिलित हैं]							
5	इक्विटी शेयर पूंजी	416.10	416.10	416.10	416.10	416.10	416.10	
6	अन्य इक्विटी	-	5 -	: ::	-		3,504.85	
7	प्रति शेयर अर्जन							
	(रू. 10 / – प्रत्येक)							
	मूल (रू.)	3.60	1.54	1.39	6.03	3.87	4.34	
	तनुकृत (रू.)	3.60	1.54	1.39	6.03	3.87	4.34	

नोट्स :

उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्जेज में प्रस्तुत किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेन्ज वेबसाइट्स www.bseindia.com/corporates तथा कम्पनी की वेबसाइट www.cosco.in पर उपलब्ध है।

को आयोजित उनकी संबंधित बैठक में किया गया है।

वास्ते कॉस्को (इंडिया) लिमिटेड देविन्दर कुमार जैन प्रबंध निदेशक एवं सीईओ स्थान : दिल्ली डीआईएन : 00191539 तिथि : 12-02-2021

उपरोक्त परिणामों का पुनरीक्षण लेखापरीक्षा समिति द्वारा तथा अनुमोदन कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा 12-02-2021